



## INDIA GLYCOLS LIMITED

Plot No. 2-B, Sector- 126, NOIDA- 201304, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, Tel : +91 120 3090100, 3090200  
Fax : +91 120 3090111, 3090211, E-mail : iglho@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com

**Date : 27<sup>th</sup> December, 2019**

**The Manager (Listing)**  
BSE Limited  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building, P.J. Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400 001

Stock Code No.500201

**The Manager (Listing)**  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East)  
Mumbai – 400 051

Stock Code :INDIAGLYCO

**Sub: Submission of Newspaper clippings of the Notice for transfer of equity shares to the IEPF Authority.**

Dear Sir,

We are enclosing herewith copies of newspaper clippings of the Notice published in the following newspapers on 27<sup>th</sup> December, 2019 in respect of proposed transfer of Equity Shares of the Company for which dividend has not been claimed for 7 consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in pursuance to the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended:


1. Financial Express (All Editions) in English; and
2. Uttar Ujala (Nainital Edition) in Hindi.

We request you to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,  
**For India Glycols Limited**

  
**Ankur Jain**  
**Head (Legal) & Company Secretary**

  
**Encl: As above**

PRUDENTIAL  
MUTUAL FUND

Corporate

Monthly Dividend

Direct Plan - Monthly Dividend

ICICI Prudential Multi-Asset Fund

Dividend

Direct Plan - Dividend

\$ The dividend payout will be subject to applicable laws and may be lower depending upon the record date under the dividend option selected.

\* Subject to deduction of applicable taxes and charges or the immediately following Business Day.

Dividend will be paid to all the unit holders in the register of unit holders/Statement of Account Holders/Depositories, as applicable under the applicable laws on the record date.

**It should be noted that pursuant to the dividend option of the selected dividend payout and statutory provisions.**

**II) Notice to the Unitholders of the Fund (the Fund) regarding updated Dividend Document (SID)**

Investors/unitholders are requested to take note of Pending Litigations, etc. of the SID Document. For further details, please refer to the SID Document available on the website of the Fund.

Investors are requested to take a note of the SID Document.

For ICICI Prudential Multi-Asset Fund

Place : Mumbai

Date : December 26, 2019

No. 015/12/2019

To know more, call 1800 222 9999

As part of the Go Green Initiative, investors are requested to provide their e-mail and mobile number to subscribe to the fund.

To increase awareness about Mutual Funds across the country. To know more about Mutual Funds, visit AMFI's website.

Mutual Fund investments are a part of a long-term wealth creation scheme related to the overall financial goals of the investor.

**INDIA GLYCOLS LIMITED**

Regd Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244713, Dist. Uttam Singh Nagar, Uttarakhnd.  
Phone: +91 5947 269000/269500/275320, Fax: +91 5947 275315/269535,  
E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com Website: www.indiaglycols.com  
CIN: L24111UR1983RPLC009097

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**

**For Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

Shareholders of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any statutory modifications or re-enactment thereof, for the time being in force ("the Rules"), the Company, inter-alia, is required to transfer the shares for which dividend remains unpaid or unclaimed for 7 (seven) consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") in the prescribed manner.

Interim Dividend during FY 2012-13 declared by the Company is becoming due for transfer to IEPF Authority as under:-

| Dividend (Year)   | Date of Declaration of Dividend | Transfer of Shares to IEPF Authority |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Interim (2012-13) | 06.03.2013                      | After 03.04.2020                     |

In compliance with the said Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually at their latest available addresses whose dividend has remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years for taking appropriate actions. Full details of such shareholders including their names, folio numbers and/or DP ID - Client ID and the number of shares due for transfer to IEPF Authority has been uploaded on Company's website www.indiaglycols.com (web-link: [https://www.indiaglycols.com/investors/investor\\_index.htm](https://www.indiaglycols.com/investors/investor_index.htm)). Shareholders are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

Shareholders who have not claimed their dividends for the year 2012-13 (interim) and onwards are requested to claim the unclaimed dividend on or before 26<sup>th</sup> March, 2020. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before the above date, the Company shall with a view to adhering with the requirements of the Rules, where the shares are held in physical form, proceed to issue new share certificate(s) in lieu of the Original share certificate(s) held by them for the purpose for dematerializing and transfer such shares to IEPF Authority, without giving any further notice. Upon such issue, the Original share certificate(s) which are registered in their name shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Such shareholders may also note that the details as uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share certificate(s). In case the shares are held in Demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in the concerned demat account in favour of IEPF authority.

No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend(s) and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. However, the concerned shareholders can claim back the unclaimed dividend(s) transferred to IEPF and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits, if any, accruing on such shares, from IEPF Authority in accordance with the procedure and on submission of such documents as prescribed under the Rules. Shareholders can also refer to the details available on [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in). For further information/clarification on the above matter, shareholders can write to the Company Secretary at its Head office at Plot no. 2-B, Sector-126, Noida-201304, District Gautam Budh Nagar, U.P. (e-mail: [compliance.officer@indiaglycols.com](mailto:compliance.officer@indiaglycols.com)) or to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, 1<sup>st</sup> Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 (e-mail: [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com)).

For India Glycols Limited  
Sd/-  
Ankur Jain  
Company Secretary

Place: Noida  
Date: 26/12/2019

- b) Date of Closing: December 19, 2019
- 6. Date of Payment: December 26, 2019
- 7. Details of the Acquisition:

| Sr. No. | Particulars                         | Proposed in the Offer Document | Actual                    |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 7.1     | Offer Price                         | Rs. 11/- per equity share      | Rs. 11/- per equity share |
| 7.2     | Aggregate number of Shares Offered  | 32,91,725                      | 14,25,226                 |
| 7.3     | Aggregate number of Shares Allotted | 32,91,725                      | 14,25,226                 |
| 7.4     | Size of the Offer                   | 3,62,08,975/-                  | Rs. 1,56,77,486/-         |
| 7.5     | Shareholding of (No. & %)           | 31,33,578<br>24.75%            | 31,33,578<br>24.75%       |
| 7.6     | Shares Acquired                     |                                |                           |
|         | • Number                            | 7,47,044                       | 7,47,044                  |
|         | • % of Fully Diluted                | 5.90%                          | 5.90%                     |
| 7.7     | Shares Acquired                     |                                |                           |
|         | • Number                            | 32,91,725                      | 14,25,226                 |
|         | • % of Fully Diluted                | 26.00%                         | 11.26%                    |
| 7.8     | Shares Acquired                     | Not Applicable                 | Not Applicable            |
|         | • Number of shares                  |                                |                           |
|         | • Price of the shares               |                                |                           |
|         | • % of the shares                   |                                |                           |
| 7.9     | Post Offer shareholding             |                                |                           |
|         | • Number                            | 71,72,347                      | 53,05,848                 |
|         | • % of Fully Diluted                | 56.65%                         | 41.91%                    |
| 7.10    | Pre and Post Offer Shareholding     |                                |                           |
|         | • Number                            | 902                            | 54,88,133                 |
|         | • % of Fully Diluted                | 0.6%                           | 43.35                     |
|         |                                     | 95,26,902                      | 73,54,632                 |
|         |                                     | 75.25%                         | 58.09                     |

- 8. The Acquirers accept the obligations under the Offer Document.
- 9. Share Purchase Agreement.
- 10. A copy of this Prospectus is available on the website of the Target Company.

**The Acquirers:**

**REGISTRARS PRIVATE LIMITED**  
d No 11, ETS-70, Sector-126, Noida, India.  
Tel: 011-26109988  
Email: [anmol.banerjee@regltd.com](mailto:anmol.banerjee@regltd.com)  
[pratik@regltd.com](mailto:pratik@regltd.com)  
[pratik@regltd.com](mailto:pratik@regltd.com)

Date: 26/12/2019  
Place: Mumbai

नैनीताल, शुक्रवार 27 दिसम्बर, 2019

उत्तर उजाला 11

**इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, कसौपुर-244713, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड  
 दूरभाष: +91 5947 289000/269500/275320; फैक्स: +91 5947 275315/269535  
 ई-मेल: compliance.officer@indiaglycols.com; वेबसाइट: www.indiaglycols.com  
 सीआईएन: L24111UR1983PLC009097

**शेयरधारकों के लिए सूचना**

निदेशांक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण कम्पनी के शेयरधारकों को एकाद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के साथ पठित निदेशांक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) निष्ठा 2016 सहित वर्तमान में उस पर लागू कोई सांख्यिक संशोधन या पुनः अधिनियमन ("नियम") के अनुरूपण में कम्पनी को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निदेशांक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ प्राधिकरण) से ऐसे शेयरों को अंतरित करना अनिवार्य है जिनके सम्बंध में निस्तर 7 (सात) या अधिक वर्षों से लाभांश अर्थात्कृत या अद्यव्यवृत्त हैं।

कम्पनी द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान घोषित किया गया अंतरिम लाभांश नियमानुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरण के लिए देव हो रहा है:

| लाभांश (वर्ष)    | लाभांश घोषणा की तिथि | आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों का अंतरण |
|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| अंतरिम (2012-13) | 06.03.2013           | 03.04.2020 के बाद                    |

कथित नियमों के अनुपालन में, कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों को उचित कार्रवाई हेतु व्यक्तिगत रूप से उनके पंजीकृत प्रपत्रों पर सूचना भेज दी है जिनके स्वयंश निस्तर सात वर्षों से अर्थात्कृत या अद्यव्यवृत्त हैं। शेयरधारकों का नाम, फोन नं., और/या डीपी आईडी - वेबसाइट आईडी तथा आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने वाले शेयरों की संख्या के साथ ऐसे शेयरधारकों का पूरा विवरण कम्पनी की वेबसाइट [www.indiaglycols.com](http://www.indiaglycols.com) (वेब लिंक [https://www.indiaglycols.com/investors/investor\\_index.htm](https://www.indiaglycols.com/investors/investor_index.htm)) पर उपलब्ध किया गया है। शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरणों की जांच कर लें।

शेयरधारक जिनमें वर्ष 2012-13 (अंतरिम) और उसके बाद अपने लाभांश का दया नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे 26 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व अपने अदावाकृत लाभांश के लिए दावा कर लें। यदि कम्पनी के पास अपरोक्त तिथि तक संबंधित शेयरधारकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियमित जारी प्रपत्रों का पालन करते हुए ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को डिनेटिफिकेशन अंतरित करने के प्रयत्न हेतु चौराके प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर नये शेयर प्रमाणपत्र बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जारी करेंगी और ऐसे शेयरों के अंतरण के बाद मूल शेयर प्रमात्र (नॉ) जो उनके नाम पर पंजीकृत है, स्वतः ही निस्तर हो जायेगा और गैर-विनिम्न माने जायेगा। शेयरधारक इस बात पर भी ध्यान दें कि कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को ही नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना प्राप्त जाएगी। यदि सम्बंधित शेयरधारक द्वारा डिनेट प्रारूप में शेयर धारण किये गए हैं तो कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में ऐसे शेयरों के अंतरण के लिए ऑपरेट प्रक्रिया के माध्यम से सम्बंधित डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

कथित नियमों के अनुपालन में, आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये गये शेयरों के संबंध में कम्पनी के निस्तर कोई डाक नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि, सम्बंधित शेयरधारक आईईपीएफ को अंतरित अदावाकृत लाभांश (नॉ) और आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित शेयरों सहित ऐसे शेयरों पर मिलने वाले लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन और नियमों के अनुसार निर्धारित दस्तावेज जमा करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दया प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक वेबसाइट [www.lepf.gov.in](http://www.lepf.gov.in) पर उपलब्ध विस्तृत विवरणों को भी अवलोकन कर सकते हैं। उपरोक्त विषय में आगे किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण के लिए शेयरधारक कम्पनी के प्रधान कार्यालय प्लॉट नं. 2-बी, सेक्टर-126, नोएडा-201301, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश (ई-मेल: [compliance.officer@indiaglycols.com](mailto:compliance.officer@indiaglycols.com)) में कम्पनी सचिव को या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स एमसीएस शेडर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, प्रथम ब्लक, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 (ई-मेल: [admin@mcaregistrars.com](mailto:admin@mcaregistrars.com)) को लिख सकते हैं।

इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड के लिए

हस्ता./-  
 अक्षय जैन  
 कम्पनी सचिव  
 स्थान : नोएडा  
 दिनांक : 26/12/2019